SURAJ INDUSTRIES LTD

Registered Office -Plot No. 2 Phase-3, Sansarpur Terrace, Distt. Kangra, H.P.-173212 **CIN:** L26943HP1992PLC016791

Email id- secretarial@surajindustries.org; **Website-** www.surajindustries.org **Telephone No**: 01970-256414

September 05, 2023

To, The Executive Director BSE Limited Floor 25, P J Towers Dalal Street, Mumbai-400001

Scrip Code: 526211

Subject: Submission of copies of newspaper advertisement for Notice of 31st Annual General Meeting

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing a copies of Newspaper Advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) Chandigarh Edition, intimating that 31st Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on **Tuesday**, **September 26, 2023 at 03:30 P.M. (IST)** through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM).

You are requested to kindly take the same on your records.

Thanking You, Yours Truly, Suraj Industries Ltd

SNEHLATA Digitally signed by SNEHLATA SHARMA Date: 2023.09.05
13:34:35 +05'30'

Snehlata Sharma
Company Secretary & Compliance officer

Encl: As Above

FINANCIAL EXPRESS

209272434

SURAJ INDUSTRIES LTD

CIN: L26943HP1992PLC016791 Regd. Office: Plot No. 2, Phase III, Sansarpur Terrace, Kangra, Himachal Pradesh 17321. Corporate Office: F-32/3, Second Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 Email id:- secretarial@surajindustries.org; Website- www.surajindustries.org Contact No: 01970-256414

NOTICE OF 31st ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the members of Mis Suraj Industries Ltd will be held on Tuesday, September 26, 2023 at 3:30 P.M. IST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out in the Notice of the AGM in accordance with the MCA circulars No.14/2020 dated April 08 2020; General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020; General Circular No. 20/2021 dated May 05, 2020; General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021; General Circula No. 19/2021 dated December 08, 2021; General Circular No. 21/2021 dated December 14 2021, General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and General Circular No. 10/2023 dated December 28, 2022 respectively ("MCA Circulars") read with SEBI/HO/CFD/PoD-2/P CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereof and SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time.

The Notice of AGM along with login details for joining the AGM through VC / OAVM facility including e-voting has been sent on Monday, September 04, 2023 through e-mail to all those Members whose e-mail address were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular, and the same are also available on Company's website (www.surajindustries.org), Stock Exchange's website (www.bseindia.com) and or the website of CDSL (www.evotingindia.com).

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) through services provided by Central Depository Services Limited (CDSL).

The remote e-voting period will commence at 10:00 A.M. (IST) Saturday 23th September 2023 upto 5:00 P.M. (IST) on Monday, 25th September, 2023. During this period, Members may cast their vote electronically. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on Monday, September 25, 2023. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC / OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available during the AGM.

Once the member cast vote on a resolution, the Member shall not be allowed to change subsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM and e-voting during the AGM is provided in the Notice of AGM.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on September 19, 2023 ('cut-off date'). Any person, who is a member of the Company as on cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or e-voting at the AGM. A person who ceases to be a Member as on Cut-off date should treat this Notice for information A person who has acquired shares and becomes a member of the Company after the

electronic dispatch of notice of the AGM and holding shares as of the cut off date, may obtain the login ID and password by sending a request to helpdesk evoting@cdslindia.com. However if the person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote. Members who are holding shares in physical form or have not registered their e-mail address

with the Company/Depositories can obtain login credentials for e-voting as per the following For members holding shares in physical form, kindly provide your name, folio number,

e-mail address to be registered along with scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar card by e-mail to the RTA at beetalrta@gmail.com.

For members holding shares in demat form, please update your e-mail address through your respective Depository Participant/s. If you have any query relating to e-voting facility, please refer the Frequently Asked Question:

(FAQ's) and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or contact CDSL on 022-23058542. In case of any grievances connected with e-voting facility, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager (CDSL) entral Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatl: Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542. The results of voting will be declared within 2 working days from the conclusion of AGM and

the results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and the website of CDSL The Company has been allotted ISIN (INE170U01011) for dematerialization of the company's

> By order of the Board of Directors of M/s Suraj Industries Ltd

Snehlata Sharma Place: New Delhi Date: 04.09.2023 (Company Secretary)

shares. All the members are requested to kindly get their shares dematerialized.

LUDHIANA COMMODITIES TRADING SERVICES LIMITED CIN: U74999PB2003PLC054437

Regd. Off: First Floor, LSE Building, Feroze Gandhi Market, Ludhiana-141001. Ph.: 0161-4615397, E-mail: |secommodities@gmail.com, website: www.ludhianacommodities.com

NOTICE OF 20TH ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE Members please may note that the 20th Annual General Meeting ("AGM" of the Members of the Company will be held on 30thSeptember, 2023 at 12:30 P.M. (IST) at First Floor, Ludhiana Stock Exchange Building, Feroze

Gandhi Market, Ludhiana-141001, Registered Office of the Company. Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 as amended, that, the Register of Members & Share Transfer Books of the Company for fully paid-up Equity Shares will remain closed from 28.09.2023 (Thursday) to 30.09.2023 (Saturday) (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend.

The dividend of Rs. 0,50/- (5%) per Equity Shares of Rs. 10/- each as recommended by the Board of Directors at its meeting held on 23.08.2023, if approved, by the Shareholders at the ensuing AGM, will be paid to those Shareholders, whose names appear in the Register of Members of the Company as on 27.09.2023. In respect of Equity Shares held on electronic form, the dividend will be paid to the Beneficial Owners of shares as at the end of business hours on 27.09.2023, as per details furnished by the Depositories for this purpose.

By the order of the Board LUDHIANA COMMODITIES TRADING SERVICES LIMITED

Place: LUDHIANA Date: 04.09.2023

(DIN: 02832228

DHEERAJ GHAI

(DIRECTOR)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2) Ist Floor SCO 33-34-35 Sector-I7 A, Chandigarh (Adttional space allotted on 3rd & 4th Floor also)

Case No.: OA/1362/2022

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule

(2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. UNION BANK OF INDIA Exh. No.: 19672

RANBIR SINGH AND ORS.

(1) Shri Ranbir Singh. D/W/S/O-Shri Cholkas Ramshri Ranbir Singh Son of Shri Chokas Ram Resident of Village And Post Office Bhadson, District Karnal Haryana 132041. (Borrower-Hypothecator-Mortgagor) Karnal, Haryana SUMMONS

WHEREAS, OA/1362/2022 was listed before Hon'ble Presiding Officer/ Registrar on 02/08/2023. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the

said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs.2432833.08/- (application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants

are directed as under:-(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.

(ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original

(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment

(iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the

(v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 17/11/2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date:

Signature of the Officer Authorised to issue summons



ZONAL OFFICE: S.C.F. 88, URBAN ESTATE, PHASE 1. DUGRI, LUDHIANA-144013. PHONE -0161-5232103/106. EMAIL: zoludhiana@indianbank.co.in

of properties.

E-AUCTION SALE NOTICE

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY/IES E-Auction Sale Notice for Sale of Movable / Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described movable / immovable properties mortgaged / charged to the Secured Creditor, the Symbolic / Physical Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Indian Bank (Erstwhile Allahabad Bank, as per Gazette Notification No. 133 (GSR - 156 E), dated 04.03.2020 w.e.f. 01.04.2020), Secured Creditor, will be sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" on date mentioned below for recovery of dues to the Secured Creditor from the below mentioned Borrower(s) and Guarantor(s). The Reserve Price and the Earnest Money Deposit and description of Movable / Immovable Properties are also mentioned hereunder:-Bid Increase Description of the Immovable

Mob. No. : 7347035132	
M/S Choudhary Sham La	1
Hem Raj Poultry Prop. St	1
Hem Raj S/o Sh. Shyam La	d
Karabara Chowk, Bakra Mand	i
Near Jalandhar Byepass	ŝ
Ludhiana. Sh. Hem Raj S/	c
Sham Lal, Address 1: H.No.	0

Name of the Branch &

Borrower(s) / Guarantor(s)

Hambran Road, Haibowal Khurd. No. 50382086275 and Rs. 16,80,899.00 (Rs. Sixteen Lakhs Ludhiana registered vide wasika No. 1102 dated 28.04.2010 in the name of Eighty Thousand Eight Hundred Ninety Nine Only) for A/C boundaries : as under : North -Park charges and expenses thereon.

Property/ies having type of Symbolic

/ Physical Possession

Reserve Price Amount Secured Debt EMD Amount (PROPERTY ID All that part and parcel of Commercial Rs. 49.97.875/- (Rupees Rs. 1,03,35,600/- Rs. 75,000/-Plot/ property measuring 500 Sq. Yards Forty Nine Lakhs Ninety Rs. 10,33,560/- IDIBL13022315913 bearing plot No. 119-L, Dairy complex, Seven Thousand Eight Hundred Seventy Five Only) for CC A/C

Hem Raj S/o Sham Lal v with 7137785482 as on 31/08/2023 along with interest, costs, other 130'-0", South -Plot No. 119 K 130'-0", East -Road 35'-0", West -Street 35'-0" (TYPE OF POSSESSION: SYMBOLIC POSSESSION).

1706, Street No. 1, Mohalla Fatehgarh, Near Chand Cinema, Ludhiana 141001. Address: 2: Karabara Chowk, Bakra Mandi, Near Jalandhar Byepass, Ludhiana, Sh. Sham Lal S/o Sh. Lala Dass. Address: 1704, Street No. 1, Ward No. 33, Love Kush Nagar Bagga Kalan, Central Post Office, Ludhiana-141001

** Date For Inspection of documents 13.09.2023 to 15.09.2023 between 10.00 am to 4.00 pm. ** Last Date And Time For Submission of Bid 19.09.2023 up to 5.00 pm 20.09.2023, 10.00 AM to 05.00 PM Date & Time of Sale

THIS PUBLICATION IS ALSO 15 DAYS NOTICE UNDER RULES 6(2) & 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002 TO THE ABOVE BORROWERS & GUARANTORS

Bidders are advised to visit the website (www.mstcecommerce.com) of our e auction service provider MSTC Ltd. to participate in online bid. For Technical Assistance Please call MSTC HELPDESK No. 033-23400020/23400021/23400022 and other help line numbers available in service providers help desk. For Registration status with MSTC Ltd., please contact ibapiop@mstcecommerce.com and for EMD status please contact ibapifin@mstcecommerce.com

For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit: https://ibapi.in and for clarifications related to this portal please contact help line number '18001025026' and '011-41106131'.

Bidders are advised to use Property ID Number mentioned above while searching for the property in the website with https://ibapi.in and www.mstcecommerce.com.

DATE: 04.09.2023 Place: Ludhiana **Authorised Officer**

GORIENTAL UNITED

... the name you can BANK upon!

Auction Ref No. 05 OCTOBER/2023-2024 SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE PROPERTIES

punjab national bank E-AUCTION NOTICE

Date: 04-09-2023

Details of the

CIRCLE SASTRA, CIRCLE OFFICE, BARNALA ROAD, NEAR BABA BHUMAN SHAH CHOWK, SIRSA cs8316@pnb.co.in

E Auction sale notice for sale of movable assets under the Securitisation and Reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest Act, 2002. with provision to rule 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to borrower(s) and guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/Charged to the secured creditor, the constructive/physical/symbolic possession of which has been taken by the authorised officer of the bank/secured creditor, will be sold on "As is Where is", "As is what is", and "Whatever there is", on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/Secured creditor from the respective borrower(s) and guarantor(s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS A) Dt. Of Demand Notice u/s 13(2) of SARFESI ACT 2002 | A)Reserve Price Description of the

Sr. No.		Immovable Properties Mortgaged/ Owner's Name (mortgagers of property(ies))	B) Outstanding Amount as on 31.05.2023 C) Possession Date u/s 13(4) of SARFESI ACT 2002 D) Nature of Possession Symbolic/Physical/Constructive	(Rs. in Lacs) B)EMD (last date of deposit of EMD) C)Bid Increase Amount	Time of E-Auction	encumbrance known to the secured creditors
11.	PNB Branch Office:	1.Soya Milk Boiler (Manufacturing	A) 08-06-2022		05-10-2023	
Sitte	Fatehabad, Haryana .		B)Rs. 17,36,308.05 (Rupees Seventeen	A) Rs.5,06,000.00	11:00AM to	Not
	Chirag Soya Milk	Cooker (Manufacturing -2019	Lakh Thirty Six Thousand Three Hundred	20200000000000	03:00 PM	Known
			leight and raise live only with further		with	30000170000
	655 Near Shiv Mandir Hans	(Manufacturing -2019)	interest until payment in full (interest and	04-10-2023	unlimited	
	Colony, Fatehabad Pin 125050	Quantity-1, 4. Pouch Packing	expenditures thereon from 01-06-2022)	100000000000000000	extension of	
	2. Mahender Kumar S/o Sher	Machine (Manufacturing -2019	C) 24-07-2023	C) Rs. 10,000/-	10 minutes	
	Singh ,Near Power House Hans	Quantity-1, 5. Fridge-2 Big & 1	D) Physical Possession		SOUTHWATTHOODINGS	
	Colony Fatehabad	Small & Chiller (Manufacture - 20	19) Quantity-3, 6. Double Head Paneer Press	Machine (Manufact	ture -2019)C	Quantity-1

Terms and conditions of E Auction Sale

Name of the Branch

The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions:

 The properties are being sold on "AS IS WHERE IS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVERTHERE IS BASIS". 2) The particulars of secured assets specified in the schedule hereinabove has been stated to the best of the information of the authorised officer, but the

 For any enquiry please contact Under Signed at 9813022527. 4) The sale will be done by the undersigned through e Auction platform provided at the website https://www.mstcecommerce.com on 05-10-2023 @ 11:00 AM.

authorised officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation.

5)For detailed term and conditions of the sale, please refer www.ibapi.in, www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app.

Date: 04-09-2023 Place: Sirsa

Authorized Officer, Secured Creditor Punjab National Bank







Canara Bank Regional Office Karnal Namaste Chowk, Near Hotel Deventure, Sector-16, Karnal PHONE NO. 01842205019, 8572801719, Email: recrokar@canarabank.com

E-AUCTION SALE NOTICE

SALE NOTICE OF IMMOVABLE ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 UNDER RULES 8(6) & 9 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Canara Bank will be sold on "As is where is"," As is what is", and "Whatever there is" in Eauction arranged by the service provider M/s CANBANK COMPUTER SERVICES LIMITED Contact: Mr. Pakhare DD (9480691777/8553643144). Email id: eauction@ccsl.co.in through the website www.indianbankseauction.com, www.canarabank.com, www.ibapi.in

LAST DATE OF RECEIPT OF EMD IS 06.10.2023 UPTO 5:00 P.M.

DATE OF E-AUCTION IS 09.10.2023 12:30 PM TO 1:30 P.M.

(with unlimited extension of 5 minutes duration each till the conclusion of the sale)

SL	Branch Name/Name & Address of the Borrower(s)/ Guarantor(s)	Brief Description of Property/ies	Total Liabilities as on specified Date	THE STREET CONTRACTOR IN THE PROPERTY OF	Earnest Money Deposit (EMD) (in Rs.)		
NO.							
KO.						Possession notice	
1.	Canara Bank, Karnal Sec 12 Branch,	All the part and parcel o		Rs.	Rs.	209272434	
	Authorised Officer, residential land and building		39.36 lakhs	3.93 Lakh	CNRB0003264		
	Smt. Shefali Bansal, (M) 85728-03264	measuring 95.60 Sq. yards	neasuring 95.60 Sq. yards cituated at House no 289 Ward	yards Rs.17,60,389.36/- plus further intere	urther interest	st & other charges	SYMBOLIC
	E-mail: cb3264@canarabank.com	no. 19, New Ram Nagar, Karnal.	Nagar, Karnal(minus recovery ,if any)			POSSESSION	
	Smt. Amarjeet Kaur W/o Sh. Preetpal		oad.				

Singh 1st address: H.no.344, Ram Nagar, Karnal 132001. 2nd address: H.no. 769, 2nd floor, near Kidzee School, Sector 04, Karnal 132001. 3rd address: H.no. 289, Ward no. 19, New Ram Nagar, Karnal 132001. Sh. Preetpal Singh S/o Sh. Sampooran Singh 1st address: H.no. 344, Ram Nagar, Karnal 132001. 2nd address: H.no. 769, 2nd floor, near Kidzee School, Sector 04, Karnal 132001. 3rd address: H.no. 289, Ward no. 19, New Ram Nagar, Karnal 132001. All that part and parcel of Total liabilities as on Canara Bank, Karnal Prem Nagar 209272434 Residential house measuring 100 29.06.2022 15.99 lakhs

1.60 Lakh Branch, Authorised Officer, CNRB0005054 Sq. Yards situated at Gali no. 1, Shiv Smt. Shefali Bansal, (M) 85728-25054 Rs.7,47,876.33/- plus further interest & other charges SYMBOLIC colony, Karnal registered with Sub E-mail: cb5054@canarabank.com POSSESSION (minus recovery ,if any). Registrara Karnal Vide Sale deed 1. Smt. Deepa Rani W/o Sh. Naveen no. 10694 dated 01.03.2013 Bounded As:- North: Plot of other, South: Plot of other, East: Road, West: House of Ram kishan. Kumar (Borrower) H.no. 4836, Gali no. 1, Shiv Colony, Karnal 132001. 2. Shri Deepak Saini S/o Madan Lal (Guarantor) H.No. 1524, bhagat mandi, karna

All parts and parcel of residential Total liabilities as on Canara Bank, Kaithal Branch, 209272434 house MCK No. 191/15(old) 12.01.2023 13.20 lakhs 1.32 Lakh CNRB0002045 Authorised Officer, bearing PPID No. 27C1547U349 having area measuring area Rs. 9,33,294.00/- plus further interest & other charges Shri Deepak Mittal, (M) 85720-02045 SYMBOLIC E-mail: cb2045@canarabank.com POSSESSION (minus recovery, if any). (100.00 Sq yards situated at Patti 1. M/s Shree Ganesh Offset printer Gaddar, Amargarh Gamri, Gali no. 11, kaithal, Haryana – 136027 within municipal limits of kaithal vide regd. Sale no. 5340/1 Prop. Smt. Rupali W/o Shri Kamal dated 03.10.2011 in the name of Smt. Rupali W/o shri Kamal Kishore bounded as under:- On the North by: Gali, On the South Kishore R/o Padla Road, Guru Nanak|by: Property of Ram chander, On the East by: Property of Karambir, On the West by: Property of Hari Dutt Sharma.

All that part and parcel of the Total liabilities as on Canara Bank, Madhuban Branch, 209272434 property situated at Ashok Vihar 04.06.2021 27.00 lakhs 2.70 Lakh Authorised Officer, CNRB0018254 Colony, Kambohpura within in Shri Pardeep Kumar Mishra, (M) 74969-18254 Rs. 2,08,827.26/- plus further interest & other charges SYMBOLIC the registration sub – district E-mail: cb18254@canarabank.com **POSSESSION** (minus recovery, if any). [Karnal and District Karnal ... 1. Sh. Ramesh kumar S/o Sh. Rangi Bounded:- On the North by : Gali, On the South by : Land of other, On the East by : House of other, On the West by Ram R/o Ashok Vihar Colony, House of other. Kambohpura, Distt karnal – 132037. 2. Smt. Ramesho Devi W/o Sh. Rangi Ram R/o Sh. Ashok Vihar Colony, Kambohpura, Distt. Karnal – 132037.

cum building measuring 1K-|04.07.2022: 46,98,000/-4,69,800/-Authorised Officer. CNRB0005845 15M being 35/1346 share of land Sh. Veer Singh , (M) 8572825845 Rs.30,54,381.00/- plus further interest & other charges SYMBOLIC measuring 67K - 06M, E-mail: cb5845@canarabank.com POSSESSION (comprised in Khewat no. 10, (minus recovery, if any)

Canara Bank, Karnal Hansi Road Branch, All the part and parcel of Plot Total liabilities as on

Sadar Bazaar Karnal, Haryana YatinderSingh. 132001, Amrinder Dhillon S/o Shyatinder Singh (Proprietor) H no A/476 Sadar bazaar Karnal, Harvana 132001, Guarantor: Rakesh Gupta S/o Ram Gopal Gupta H.no. 10, Bank colony, Dist. Karnal, Haryana 132001.

M/s Dhillon Dairy (Borrower) A476 Khatoni no. 14, Kittas 14, situated at Vill. Saidhpura, Tehsil and Dist. Karnal in the name of Sh. Amrinder Singh S/o Sh.

All part and Parcel of House Total liabilities as on Canara Bank, Pipli Branch, 209272434 measuring East to West 30; 31.08,2022: 20,74,000/-2,07,400/-Authorised Officer, CNRB0003224 North to South 30' total area 100 Sh. Binod Kumar Kachhap, (M) 8572803224 Rs.41,90,703.73/- plus further interest & other charges SYMBOLIC sq. yards i.e. 3 Marla – 4 Sasai E-mail: cb3224@canarabank.com being 7/216 shareout of land (minus recovery, if any) POSSESSION M/s Hari Om mills (Proprietorship measuring 5K -8M comprised in Khewat no.36/34 Khatoni no. 40, Khasra no. 380/5(5-8) Kitta 1 as per Jamabandi for

firm) Near Swami feeds Karnal|the year 2017-18 situated at pipli tehsil thanesar, Dist. Kurukshetra in the name of Sh. Pardeep Kumar S/o Sh. Sher Road, Pipli Kurukshetra. Sh. singh. Bounded As:- North: House of other, South: House of Hem lata, East: House of other, West: Gali 16' wide. Pardeep Kumar S/o Sh. Sher Singh (Proprietor) H.no. 643/5A Near goga mari BNC Pipli Kurukshetra. All part and parcel of plot no.43, Total liabilities as on Canara Bank, Pipli Branch, Rs. 209272434

measuring 0K 5-1/2M i.e. (Ok-4M 31.08.2022: 25,92,000/-2,59,200/-Authorised Officer, CNRB0003224 i.e. 4/148 share out of land Sh. Binod Kumar Kachhap, (M) 8572803224 Rs.41,90,703.73/- plus further interest & other charges SYMBOLIC measuring 7K - 8M comprised in E-mail: cb3224@canarabank.com (minus recovery, if any). (Khewat no. 234 rect no. 45, (minus recovery, if any) POSSESSION M/s Hari Om mills (Proprietorship Khasra no. 11/1 (7-8) and 0K 1-1/2M i.e. 3/88 share out of land measuring 2K 4M comprised in Khewat no. 372 rect no. firm) Near Swami feeds Karnal 45 Khasra no. 20/1 (2-4) situated at Vill. Bir Pipli Patti Kishangarh Tehsil Thanesar Dist. Kurukshetra transfer deed no.

Road, Pipli Kurukshetra. Sh. 7138 dated 17.03.2017 read with mutation no. 6577 (vide jamabandi for the year 2016-17, Khewat no. 279/266, Pardeep Kumar S/o Sh. Sher Singh Khatoni no.315, rect. No. 45, Khasra no. 11/1 (7-8), Khewat no.433/412, Khatoni no. 471, Rect. No. 45, Khasra no. 20/1 (2-(Proprietor) H.no. 643/ 5A. Near 4) in the name of Sh. Pardeep Kumar S/o Sh. Sher Singh). Bounded As:- North: Plot no. 42, South: Plot no. 44 and 45, goga mari BNC Pipli Kurukshetra . | East: Plot no. 46, West: Gali. Other terms and condition

(a) The property is being sold with all the existing and further encumbrances whether known or unknown to the bank, The Authorized officer/Secured Creditor

(Rural)(part)(1), karnal, Haryana, 132001.

Colony Kaithal, Harvana - 136027

shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues. The purchaser should conduct due diligence on all aspects related to the property to his satisfaction. The bidder are advised to in their own interest to satisfy themselves with the title and correctness of others details pertaining to the secured assets including the size/area of the immovable secured asset in question and also ascertain any other dues liabilities/encumbrances from the concerned authorities to their satisfaction before submitting the bid. The purchaser shall not be entitled to make any daim against the authorized officer/Secured Creditors in this regard at a later date.

(b) In the event of any default in payment of any of the amounts, or if the sale is not completed by reasons of default on the part of the purchaser/bidder within the aforesaid time limit, the bank shall be entitled to forfeit all monies paid by the purchaser bidder till then and put up the secured asset(s) for sale again, in its absolute discretion, Further, all costs, expenses incurred by the bank on account of such resale shall be bome and paid by the defaulting purchaser.

O Auction/bidding shall be only through "Online Electronic Bidding" through the website www.indianbankseauction.com (Mention the website), Bidders are advised to go through the website for detailed terms before taking part in the e-auction sale proceedings. (d) The property can be inspected, with Prior Appointment with Authorized Officer, on or before the date of submission of EMD ie. 06.10.2023.

(e) The property will be sold for the price which is more than the Reserve Price and the participating bidders may improve their offer further during auction process.

(f) EMD amount of 10% of the Reserve Price is to be deposited by way of Demand draft in favour of Authorized Officer of respective Canara Bank Branches, OR shall be deposited through RTGS/NEFT/Fund Transfer to credit of account of respective Canara Bank Branches, on or before 06.10.2023 by 05.00 pm

(I) Demand Draft/Pay order towards EMD amount, I paid through RTGS/NEFT, acknowledgement receipt thereof with UTR No. (ii) Photocopies of PAN Card, ID Proof and Address proof, However, successful bidder would have to produce these documents in original to the Bank at the

time of making payment of balance amount of 25% of bid amount. (iii) Bidders Name, Contact No. Address, E Mall id.

(iv) Bidder's A/c details for online refund of EMD. (g) EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded to them. The EMD shall not carry any interest

Date:- 05.09.2023

(h) Auction would commerce at Reserve Price, as mentioned above. Bidders shall improve their offers in multiplies of Rs. 1,000/-, 10,000/- Rs of the successful

bidder, subject to confirmation of the same by the secured creditor (i) The successful bidder shall deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD already paid), immediately on declaring him/her as the successful bidder and the

balance within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. If the successful bidder fails to pay the sale price, the deposit made by him shall be forfeited by the Authorised Officer without any notice and property shall forthwith be put up for sale again (j) for sale proceeds of Rs. 50 (Rupees Fifty) Lacs and above, the successful bidder will have to deduct TDS at the rate 1% on the Sale proceeds and

submit the original receipt of TDS certificate to the Bank

(k) All charges for conveyance, stamp duty/GST registration charges etc as applicable shall be borne by the successful bidder only. Authorized Officer reserves the right to postpone/cancel or vary the terms and conditions of the e-auction without assigning any reason thereof,

(m) In case there are bidders who do not have access to the internet but interested in participating the auction, they can approach concerned Regional Office, as a facilitating centre, For further details Contact No. 0184-2257855, E-mail id: recrokar@canarabank.com

SPECIAL INTRUCTION/CAUTION Bidding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Canara Bank nor the Service Provider will be responsible

for any lapses/failure (internet failure, Power failure, etc.) on the part of the bidder or vendor in such cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements/alternatives such as back-up, power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction successfully.

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002

Chandigarh

AUTHORIZED OFFICER, CANARA BANK PLACE: KARNAL



STATUTORY SALE NOTICE OF 30 DAYS UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002 financialexp.epap.in

मनोमय टेक्स इंडिया लिमिटेड

Regd. Office: 32, Heera Panna Market Pur Road, Bhilwara - 311001 (Rajasthan) India Ph: - 01482-246983 Email: ykladdha@hotmail.com Website: www.manomaytexindia.com CIN:L18101RJ2009PLC028647

14वीं वर्षिक आम बैठक के सदस्यों को सुवना शेवरधारक, मतदान और पुस्तक समापन कंपनी अधिनियम, 2013 ('एसीटी') के प्रावधान और पुनर्वित और सेबी (सुवीबद्धता द्ववित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ ['सेबी (एलओडीआर) विनियम] के प्रावधानों के अनुसार, नोटिस दिया गया है कि चौदह वर्षिक सामान्य कंपनी के शेयरथारकों की बैठक (एजीएम) मंगलवार, 26 सितंबर, २०२३ को दोपहर ०१:०० बजे (आईएसटी) ३२, हीरा पत्रा मार्केट, पूर रोड, भीलवाडा-३११००१ राजस्वान (भारत) पर आयोजित की जाएगी। भौतिक कोरम की प्रपश्चिति के साथ खापार में लेन-देन करने के लिए वर्षिक आम बैटक की

स्थना का निर्धारण किया गया है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम बुलाने का नोटिस 04 सितंबर, 2023 को कंपनी के सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा गया है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकत थे। नोटिम की प्रति के साव वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी की वेबसाइट :

http://manomaytexindia.com/annual_report.html, https://www.bseindia.com/,

https://www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। निदेशक मंडल ने आर.के. जैन एंड एसोसिएटस, प्रैविटसिंग कंपनी सेज्ठेटरी के श्रीआर.के. जैन को निष्पक्ष और पारदर्शी

तरीके से मतदान प्रक्रिया के संवालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और कंपनी के नियम 10 के अनुसार आगे नोटिस दिया गया है (प्रबंधन और प्रशासन) निवम, २०१४ और सेबी के विनियम ४२ (रितिस्टेंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता), सदस्यों का रिजस्टर और कंपनी की शेवर ट्रांसफर बुक्स 20 सिलंबर 2023 से 26 सिलंबर, 2023 तक बंद रहेंगी (दोनों दिन सम्मिलित)।

सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट ऑफ तारीसा १९ सितंबर २०२३ तय की है। किसी भी शिकायत/प्रश्न के लिए सदस्वों से अनुरोध है कि वे मनोमय टेक्स इंडिया लिमिटेड के कंपनी सकिव श्री कामेश श्री श्री माल से पंजीवज्ञत कार्यालयः ३२, हीरा पत्रा मार्केट, पुर रोड, भीलवाड्रा, राजस्थान ३११००१ भारत पर संपर्क करें। ईमेल cs@manomaytexindia.com, द्रश्मक 01482-246983।

स्वान-मीतवाड felis 04-09-2023 क्ते मनोमव देवस इंडिया लिमिटेड हस्तावरित /-(श्री कामेल श्री श्रीमारा)

MANOMAY

फर्स्ट कैपिटल इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 **फोन नं.** 011-43621200. **फैक्स नं.** 011-41501333. सीआईएनः U74899DL1994PLC057651 ई—मेल आईडीः nghai@landmarkholdings.in

एतद्दवारा सूचना दी जाती है "कंपनी" की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को दोपहर 03.00 बजे भा.मा.स. उक्त बैठक बुलाने के नोटिस में निर्धारित सामान्य कार्यवाही को संचालित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विज्अल साधन ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के साथ इसके तहत जारी किए गए सभी लागू परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकत हैं।

कंपनी अपने सदस्यों को नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट डालने की सविधा प्रदान करके प्रसन्न है। ई-वोटिंग से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं: एजीएम की सुचना में निर्धारित सामान्य कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा निष्पादित

किया जा सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग 26 सितंबर, 2023 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी।

रिमोट ई-वोटिंग 28 सितंबर 2023 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।

इलेक्टॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख 22 सितंबर, 2023 है। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सचना भेजने के बाद कंपनी क

सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि. यानी 22 सितंबर, 2023 तक शेयर रखता है. व evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। सदस्य ध्यान दें किः क) वोटिंग के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्युल को अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, उसे इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ख) ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी; ग) एक सदस्य जिसने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट

डाला है, वह भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन दोबारा वोट डालने का हकदार नहीं होगा; घ एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वह ही मतदान की दोनों सुविधाओं यानी रिमोट ई-व माध्यम से एजीएम में वोटिंग या ई-वोटिंग का लाभ उठाने का हकदार होगा। एजीएम का नोटिस एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग

उपयोगकर्ता मैन्अल का संदर्भ ले सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर एक अन्रोध भेज सकते हैं या टेलीफोन नंबर 022 48867000 / 24997000 पर कॉल करें जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायत का समाधान भी करेगा। कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक यहां ऊपर उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार

आयोजित होने वाली 29वीं वार्षिक आम बैठक के समय 22.09.2023 से 29.09.2023 (दोनों दिन शामिल कृते फर्स्ट कैपिटल इंडिया लिमिटेड

नरेश कुमार घई

नई दिल्ली 04 सितम्बर 2023

तक बंद रहेंगे।

नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्टस लिमिटेड

(सीआईएन: L65993DL1970PLC146414) पंजीकृत कार्यालय : 28 नजफगढ़ रोड, मोती नगर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110 015 फोन नंबर (011) 45021854, 45021812; शाखा कार्यालय : ओ. पी. जिंदल मार्ग, हिसार-125005, हरियाणा

फोन नंबर (01662) 222471-83 ई-मेल आईडी : investorcare@nalwasons.com, वेबसाइट : www.nalwasons.com

52वीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में

सदस्यों हेतु सूचना एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड (''कम्पनी'') की 52वीं वार्षिक सामान्य बैठक (''एजीएम'') का आयोजन—शक्रवार. 29 सितंबर 2023 को 11.30 बजे वीडियो कान्फ्रेन्स ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से, कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों, कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी

सर्कुलर्स दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 के साथ पठित सर्कुलर दिनांकित 5 मई, 2022, 13 जनवरी 2021, 8 दिसम्बर, 2021, 28 सितम्बर, 2020, 15 जून, 2020, 5 मई 2020, 8 अप्रैल 2020 एवं 13 अप्रैल 2020 (सामूहिक रूप में ''एमसीए सर्कुलर्स'' के रूप में संदर्भित), सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 और सेबी द्वारा जारी सर्कूलर दिनांकित 5 जनवरी, 2023 के साथ पठित सर्कुलर दिनांकित 13 मई, 2022, 15 जनवरी, 2021 तथा 12 मई 2020 (सामूहिक रूप में ''सेबी सर्कूलर्स'' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, बैठक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना किया जाएगा। 52वीं एजीएम की सूचना एवं वर्ष 2022—23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखाँपरीक्षित वित्तीय विवरण शाँमिल है, केवल उन सदस्यों को ई—मेल द्वारा प्रेषित किए जा रहे हैं जिनके ई-मेल पते एमसीए सर्कूलर्स एवं सेबी सर्कूलर के अनुसार कम्पनी में अथवा

उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों में पंजीकृत हैं। सदस्यगण कैवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 52वीं एजीएम से जुड़ सकते हैं उसमें भागीदारी कर सकते हैं। 52वीं एजीएम से जुड़ने के अनुदेश तथा 52वीं एजीएम की समयावधि में रिमोट ई—वोटिंग अथवा ई—वोटिंग में भागीदारी करने की विधि का उल्लेख 52वीं एजीएम सूचना में किया गया है। वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 52वीं एजीएम में भागीदारी करनेवाले कंपनी के सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की पूर्ति के उददेश्यार्थ की जाएगी। 52वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की विबसाइट www.nalwasons.com, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। सदस्यगण जो कि भौतिक रूप में अंशों का धारण किए हुए हैं और जिन्होंने अपने ई–मेल पतों को

कंपनी के साथ पंजीकत नहीं कराया है और जो 52वीं एजीएम की सचना एवं वर्ष 2022—23 हेत वार्षिक रिपोर्ट तथा / अथवा ईँ—वोटिंग सहित वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 52वीं एजीएम से जुड़ने हितू लॉगइन विवरण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे अब कम्पनी के साथ अपने ई–मेल पतों का पंजीकरण करा सकते हैं। इस उददेश्य हेत् वे उस हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की हुई प्रति प्रेषित कर सकते हैं जिसमें फोलियों नंबर, पूरा पता एवं पंजीकृत किए जानेवाले ई–मेल पते के साथ पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति और सदस्य के पंजीकत पते का अनसमर्थन करनेवाला कोई दस्तावेज कम्पनी को ई—मेल द्वारा investorcare@nalwasons.com पर प्रेषित कर सकते हैं। सदस्यगण जो कि अभौतिक रूप में अंशों का धारण किए हुए हैं उनसे अनरोध है कि वे केवल अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ अपने ई–मेल पते पंजीकत कर लें।

> कृते नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड (अजय मित्तल) कंपनी सचिव

also be available on the websites of SEBI, BSE and NSE at www.sebi.gov.in, www.bseindia.com, www.nseindia.com respectively.

FSL फ्रान्टलाइन सिक्युरिटीज लिमिटेड

CIN: L65100DL1994PLC058837 पंजीकृत कार्यालयः एम-६, कक रा तल. एम ब्लॉक मार्केट. ग्रेटर कैलाश-कक नई दिल्ली- 110048

कॉर्पोरेट कार्यालयः बी-22, सेक्टर-4, नोएडा-201301 वेबसाईटः www.fslindia.com, ईमेलः secretarial@fsltechnologies.com टेलीफोन: 0120-2534067

29वी वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग एवं पुस्तक बंद होने की सचना

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सर्क्युलर तिथि 5 मई, 2020 के साथ पठित सर्क्युलर तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021, 8 दिसम्बर, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 तथा 5 मई, 2022 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपन्न' सन्दर्भित) के अनुपालन में फ्रान्टलाइन सिक्यरिटीज लिमिटेड की 29वीं वार्षिक साधारण सभा शक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 को 3.30 बजे अप. भा.मा.स. वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/ अन्य ऑडियो विजअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें सभा की सचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

उपरोक्त सर्क्यलर के अनुसार एजीएम की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.fslindia.com तथा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली. 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम. 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों के संदर्भ में एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से एजीएम में ई-वोटिंग के साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में (''रिमोट ई-वोटिंग'')

द्वारा मतदान की सुविधा सदस्यों को उपलब्ध करा रही है। एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदान करने की प्रक्रिया एजीएम सुचना की नोट नं. 16 एवं 17 में दी गई है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 25 सितम्बर, 2023 को 9.00 बजे पुर्वा. (भा.मा.स.) में शुरू होगी तथा गुरुवार,

28 सितम्बर, 2023 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) में बंद होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग

पद्धति निष्क्रिय कर दी जोगी। सदस्यों का मताधिकार शक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 (''कट-ऑफ तिथि'') को

यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते है, वे एनएसडीएल की वेबसाईट अर्थात् https://www.evoting.nsdl.com पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा द्वारा मतदान कर सकते हैं। जिस किसी व्यक्ति का नाम कर-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी/आरटीए द्वारा पूर्वंधित लाभ भोगी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे। डलेक्टॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी। जो सदस्य वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में उपस्थित हों तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा प्रस्तावों पर पहले मतदान नहीं किये हों. वे एजीएम

कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पंजी में उनकी शेयरों के अनुपात में होगा।

के लिए अधिकृत नहीं होंगे। कम्पनी के ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकत नहीं कराये हों, वे निम्न प्रक्रिया के अनसार उसे पंजीकत

के दौरान ई-वोटिंग द्वारा मतदान के लिए योग्य होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना

मतदान कर दिये हों वे वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एजीएम में फिर से मतदान

1. भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि फोलिओ नं., शेयरधारक का नाम, ईमेल आईडी. मोबाईल नम्बर. शेयर प्रमाणपत्र (फ्रान्ट एवं बैंक) की स्कैन की गई प्रति. पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन्ड कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन्ड कॉपी) अथवा ई-मेल पते के पंजीकरण के लिये किसी अन्य दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसैन्स, बैंक विवरण, इलेक्शन कार्ड, पास्पोर्ट) से शामिल विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र secretarial@fsltecologies.com पर भेजकर कम्पनी के पास अपना ईमेल पता पंजीकत/अद्यतन करा लें।

2. डिमैट पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से आग्रह है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा प्रक्रिया के अनुसार तथा डीपी की सलाह से डिमैट खाता में अपना ईमेल पता पंजीकृत कराएें। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिये सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर एनएसडीएल से सम्पर्क करें अथवा श्री अभिषेक मिश्रा, एनएसडीएल से विनिर्दिष्ट ईमेल आईडी: abhishekm@nsdl.co.in पर अथवा टेलीफोन नम्बर +91 22 24994545 पर सम्पर्क करें। सदस्यगण secretarial@fsltecologies.com पर कम्पनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2<mark>023 से</mark> गुरुवार, 28 सितम्बर, 2023 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

फ्रान्टलाइन सिक्युरिटीज लिमिटेड के लिये

राकेश कुमार जैन

डाआइएन : ०००५०५४४

अटलांटिक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड **पंजी. कार्यालयः** यूनिट नं0. 2075, दुसरा तल, प्लाजा—II, सेंट्रल स्क्वायर, 20,

मनोहर लाल खुराना मार्ग, बारा हिंदु राव, दिल्ली-110006 CIN: L51909DL1985PLC020372 वेवसाइटः www.atlantic-commercial.com

ई—मेल आईडी: limitedatlantic@gmail.com, फोन न0: 011-41539140

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि अटलॉटिक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड (दि 'कंपनी') की सदस्यों की 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम'), सूचना पत्र में वर्णित व्यापार के लेन-देन के लिए, यूनिट नं0, 2075, दूसरा तल. प्लाजा−॥, सेंट्रल स्ववायर, 20, मनोहर लाल खुराना मार्ग, बारा हिंदु राव, दिल्ली−110006 में शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023, दोपहर 02:30 बजे आयोजित की जाएगी।

एतदहारा वह भी सुवित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, समय-समय पर यथा संबोधित, के अनुपालन में, उपरोक्त एजीएम के प्रयोजन के लिए, सदस्यों का रजिस्टर एवं शेवर इस्तांतरण खाते शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 से शक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 (दोनों दिन वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट तथा कंपनी की 38वीं एजीएम की सूबना पत्र की वास्तविक प्रतियाँ, सभी

सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमित माध्यम से भेजी जा चकी है। इन्हीं की इलैक्टिक प्रतियों उन सदस्यों को, जिनके इमेल आईडीज कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(स) के साथ पंजीकत हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा उसके साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20. समय-समय पर यथा संशोधित, तथा सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स एंड डिस्क्लोसर रिक्वायरगेंटस)

रेगलेशन्स, 2015, के विनियमन 44 के अनुसार कंपनी अपने सदस्यों के लिए, नेशनल सिक्योरिटीज ढिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध ईं–बोटिंग सेवाओं के मध्यम से, उपरोक्त एजीएम में विचार किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने का अधिकार प्रयोग करने की सुविधा सहर्ष प्रदान पनस्व, मतपत्र के माध्यम से बोट देने की सविधा एजीएम में उपलब्ध होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले

ही रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं किंतू वे एजीएम में अपना बोट नदी दाल सकेंगे। सुश्री प्रज्ञा परीमीता प्रधान, पूर्णकालिक अभ्यासरत कंपनी सचिव, मैसर्स प्रज्ञा प्रधान एंड एसोसिएट्स, कंपनी

. सचिवों, के प्रोपराइटर, को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग प्रक्रिया व एजीएम पर मतदान को संचालित करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सभी सदस्यों को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि:

तिथि: 05.09.2023

(i) कंपनी की 38वीं एजीएम की सूचना में यथा निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की कार्यवाही की जा सकती है: (i) रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 (प्रात: 9.00 बजे मा.मा.स.) से आरंभ हो रही है;

(ii) रिमोट ई-वोटिंग अविध गुरुवार, 28 सितम्बर, 2023 (सार्थ 5.00 बजे भा.मा.स.) को समाप्त हो रही है; (iv) कट-ऑफ तिथिः गुरुवार, 21 सितम्बर, 2023;

(v) कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर को अधिग्रहण करता है और/या आवंटित/जारी किए गए शेयर प्राप्त करता है तथा नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितम्बर, 2023 को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर आवेदन करके लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है या टॉल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर एनएसढीएल से संपर्क कर सकता है। हालांकि, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल से पहले से ही पंजीकृत है तो वह अपना वोट ढालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईढी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

(vi) सभी सदस्य नोट करें कि: गुरूबार, 28 सितम्बर, 2023 (सार्य 5.00 बजे भा.मा.स.) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं

मतपत्र के माध्यम से वोट देने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में जपस्थित वे सदस्य जिन्होंने पहले ही रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है वे एजीएम में अपना वोट डाल सकेंगे: (C) रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से बोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सदस्य एजीएम

में भाग ले सकते हैं किंत् उन्हें एजीएम में फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और (D) कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि वानी 21 सितम्बर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर या

डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है वही रिमोट ई-बोटिंग तथा एजीएम में वोट देने की सुविधा पाने के हकदार होंगे; (vii) कंपनी की 38वीं एजीएम का सूचना पत्र कंपनी की वेबसाइट www.atlantic-commercial.com और

एनएसढीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है; और

(viii) किसी भी शंका के मामले में, सदस्य 'सदस्यों के लिए त्वरित पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएवयू) एवम 'ई—बोटिंग यूजर निर्देशिका' जो <u>www.evoling.nsdl.com</u> के डाउनलोड भाग में उपलब्ध है, का <mark>संदर्</mark>म ले सकते हैं या श्री अजय कुमार दलाल, वरिश्ठ प्रबंधक / श्री अमरजीत, वरिष्ठ प्रबंधक, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ-65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज- ।, नई दिल्ली-110020, फोन नं. --011--41406149, ईं-मेल- <u>admin@mcsregistrars.com</u> या एनएसबीएल से टोल फ्री नं0 1800--222--990, पर संपर्क करें, जो इसैक्ट्रानिक वोटिंग से जुढ़ी शिकायतों का समाधान करेंगे।

इस सूचना में निहित जानकारी कंपनी की वेबसाइट (www.alantic-commercial.com) और मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (<u>www.msei.in</u>) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।

कृते अटलांटिक कमर्शिवल कंपनी लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली

ओसिव पानेला जैंकव

SMART FINSEC LIMITED

(Formerly Known as Kevalin Securities Limited) CIN: - L74899DL1995PLC063562 Reg. Off. F-88, West District Centre, Shivaji Enclave, Rajouri Garden, New Delhi-110027 Email Id:- smartfinsec@gmail.com,

Website: www.smartfinsec.com NOTICE of 28th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting of Members of Smart Finsec Limited will be held on Tuesday, September 26, 2023 at 11:00 A.M. through Video Conference("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular No. 20/2020, 21/2021,02/2022and 10/ 2022, dated May 05, 2020, December 14, 2021, May 05, 2022, and December 28, 2022 respectively and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI)' to transact the businesses set forth in the Notice of AGM. The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2022-23 have been sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The same is also available on the website of the Company i.e. smartfinsec.com, Stock Exchange website i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on website of National Securities Depository Limited (NSDL)www.evoting.nsdl.com

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act. 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday September 20, 2023 to Tuesday, September 26, 2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

As per Section 108 of the Act and rules made thereunder read with Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, 2015, the company is pleased to provide e-voting facility to its members through e-voting system of NSDL. The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Tuesday, 19th September, 2023, may cast their vote electronically to transact the business set out in the Notice of AGM.

The remote e-voting period starts on Saturday, 23rd September, 2023 (09:00 am) and ends on Monday 25th September, 2023 (05:00 pm). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may

also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. In case of any gueries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com or contact NSDL helpdesk by sending request at evoting@nsdl.co.in or call at: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

Place: New Delhi Date: 3rd September, 2023

Rajvinder Kaur Company Secretary

For Smart Finsec Limited

सूरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएन : L26943HP1992PLC01679

पंजीकत कार्यालय: प्लॉट नं. 2. फेज III. संसारपर टेरेस, कांगडा, हिमाचल प्रदेश-173212 कार्पोरेट कार्यालय : एफ-32/3, द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-'', नई दिल्ली-110020 ई-मेल आईडी : secretarial@surajindustries.org; वेबसाइट : www.surajindustries.org सम्पर्क नं. : 01970-256414

31वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना तथा ई-वोटिंग की जानकारी एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/

OD-2/P/ CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 ('सेबी परिपत्र') के साथ पठित एमसीए परिपत्र संख्य 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल. 2020: सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल. 2020: सामान्य परिपत्र संख्या २०/२०२० दिनांक ०५ मई,२०२०; सामान्य परिपत्र क्रमांक ०२/२०२१ दिनांक १३ जनवरी २०२१; सामान्य परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021: सामान्य परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 और सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 ('एमसीए परिपत्र') एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं समय-समय पर संशोधित सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को निष्पादित करने के लिए मैसर्स सुरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजअल साधनों ('ओएवीएम') द्वारा मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 को 3.30 बजे अप. भा.मा.स. पर आयोजित की जायेगी। एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के अनुसार ई–वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण के साथ एजीएम की सुचना सोमवार, 04 सितंबर, 2023 को उन सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है, जिनका ई-मेल पता कंपनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या

(www.surajindustries.org), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2015 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं

उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') के साथ के साथ पंजीकृत था और यह कंपनी की वेबसाइट

के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) के माध्यम से इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार 23 सितंबर, 2023 को सुबह 10:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी और सोमवार, 25 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से

अपना वोट डाल सकते हैं। सोमवार, सितम्बर 25,2023 कोशाम 5:00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड से ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। इसके बाद ई-वोटलएनजी मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से दोबारा वोट

एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर मतदान कर देता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में शामिल होने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विस्तत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

सदस्यों का मतदान अधिकार 19 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा। कोई भी व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि पर कंपनी का सदस्य है, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग का उपयोग करके एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट देने के लिए पात्र है। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं रह जाता है. उसे इस नोटिस को केवल सचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। कोई व्यक्ति जिसने शेयर हासिल कर लिए हैं और एजीएम के नोटिस के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य

बन गया है और कट ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजुदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा

वे सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकत नहीं किया है. वे निम्नलिखित प्रक्रिया के अनसार ई-वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त कर सकते हैं: . भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, कृपया अपना नाम, फोलियो नंबर, पंजीकृत होने वाला ई–मेल पता, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति और आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित स्कैन कॉपी आरटीए को beetalrta@gmail.com पर ई-मेल करें।

2. डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपना ई-मेल पता अपडेट करें। यदि आपके पास ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित कोई प्रश्न है, तो कृपया www.evotingindia.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा e-voting user manual for shareholders देखें या 022-23058542 पर सीडीएसएल से संपर्क करें। ई-वोटिंग सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के मामले में, कृपया श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन प्यचरैक्स, मफतलाल मिल कंपाउंडस, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 से संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल भेजें

या 022-23058542 पर कॉल करें। मतदान के परिणाम एजीएम के समापन से 2 कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे और घोषित परिणाम समेकित स्क्रटिनाइजर रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट और सीडीएसएल की वेबसाइट पर रखे जाएंगे। कंपनी के शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन के लिए कंपनी को क्रक्ट (क्टए170व01011) आवंटित किया गया है। सभी

सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज करा लें। मैसर्स सूरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(कंपनी सचिव)

एसीई इंटीग्रेटेड सॉलूशन्स लिमिटेड सीआईएनः L74140DL1997PLC088373

रजि. कार्यालयः बी-13, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, कार्यात्मक औद्योगिक एस्टेट,

औद्योगिक क्षेत्र पटपडगंज, नई दिल्ली-110092 इमेल- md@aceintegrated.com, cs@aceintegrated.com

फोन नंबर 011.22162970, वेबसाइट- www.aceintegrated.com 26वीं वार्षिक आम बैठक की सचना बक क्लोजर और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

एतदद्वारा सचना दी जाती है कि एसीई इंटीग्रेटेड सॉल्यशंस लिमिटेड की 26वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को सुबह 11.00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लाग प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में और एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एजीएम आयोजित करने के लिए कंपनियों को अनुमति वाली ,एमसीए / सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, 26वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित अनुसार कार्यवाही करने हेत् आयोजित होने वाली है। 26वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का निर्धारित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार वीसी / ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों के आधार पर कोरम पर विचार किया जाएगा। 26वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन सभी सदस्यों

को भेज दी गई है जिनकी ई-मेल आईडी 01 सितंबर, 2023 को कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया 04 सितंबर, 2023 को परा हुआ। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधान के साथ पठित समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 ('नियम') के नियम 20 और सेबी के

विनियम 44 (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई रिमोर्ट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से कंपनी की वार्षिक आम बैठक की सचना में निर्धारित किए गए सभी लेनदेन पर इलेक्टॉनिक वोटिंग स्विधा के माध्यम से वोट देने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की स्विधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग सविधा के लिए विस्तृत निर्देश सदस्यों को भेजी गई वार्षिक आम बैठक की सूचना में निहित हैं।

1. 26वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सचना कंपनी की वेबसाइट www.aceintegrated.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की 26वीं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.aceintegrated.com उपलब्ध है।

2. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को (सुबह 09:00 बजे) शुरू होगी। 3. रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को (शाम 5:00 बजे) समाप्त होगी।

4. रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 (शाम 5:00 बजे) के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट दिए जाने के बाद, सदस्य को इसे बाद उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 5. कट—ऑफ तारीख यानी 22 सितंबर, 2023 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में

शेयर रखने वाले सदस्य एजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसाय पर लेन-देन करने के

लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डॉल सकते हैं। 6. ईजीएम की सचना भेजने के बाद और कट—ऑफ तारीख यानी 22 सितंबर, 2023 को शेयर रखने वाले और कंपनी के सदस्य बनने वाले व्यक्ति, एजीएम की सूचना में दिए गए अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों और प्रक्रिया का पालन करके अपना वोट डाल सकते हैं। 7. एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनमति नहीं दी जाएगी। संयक्त धारकों की संख्या पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक ग्राहक आईडी के लिए एक ई-वोट होगा। वोटिंग अधिकार की गणना कट-ऑफ

सचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। 8. सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन बैठक में उन्हें दोबारा मतदान करने की

तिथि के अनुसार सदस्य के नाम पर पंजीकृत शेयरों के भुगतान किए गए मूल्य पर की

जाएगी और कोई भी व्यक्ति जो उस तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल

अनुमति नहीं दी जाएगी। 9. यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के बारे में ई-वोटिंग सिस्टम से सम्बंधित कोई प्रश्न या समस्या है. तो आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर : 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें या सूश्री पल्लवी म्हात्रे—वरिष्ठ प्रबंधक को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तकों को बंद करना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधान के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें, शनिवार, 23 सितंबर, 2023 से शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) कंपनी की 26वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने के उद्देश्य से बंद

कृते एसीई इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड

दिनांकः 4 सितंबर, 2023

सदस्यता संख्याः एसी एस - 65069

राहुल चौहान

विवो कोलैबोरेशन सॉल्यूशन्स लिमिटेड (सीआईएन: U72900DL2012PLC230709)

पंजीकृत कार्यालयः 315, तीसरी मंजिल, एचबी ट्विन टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा उत्तरी दिल्ली दिल्ली-110034 ईमेलः sanjay.mittal@vivo.ooo, वेबसाइट: www.vhro.ooo, फोन: 91-7838651690;

12वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, ई-वोटिंग की जानकारी, बुक क्लोजर

एतदवारा सचना दी जाती है कि 12वीं एजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए कंपनी की 12वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से गरुवार, 28 सितंबर, 2023 को 02:00 अपराह्न (भा.मा.स.) पर आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के लाग प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा

जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/ 2020, 02/2021 और 03/2022 क्रमशः दिनांक 08 अप्रैल, 2020 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020,13 जनवरी, 2021 और 05 मई 2022 एवं अन्य परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सुचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सेबी परिपत्र स सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआरपी/पी/2020/79 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/1 क्रमशः दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 के अनुसार, 12वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 को इलेक्ट्रॉनिक मोड में केवल उन सदस्यों को जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं, भेजा गया है। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से सदस्यों को एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 04 सितंबर, 2023 को परा कर लिया गया है। उपरोक्त नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.vivo.ooo और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों और आम बैठक (एसएस-2) पर सचिवीय मानक के अनपालन में, कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से अपने सदस्यों को वीसी/ओएवीएम सुविधा और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम के दौरान एजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से मतदान करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। इस संबंध में प्रक्रिया/निर्देश एजीएम की सचना के नोटस में प्रदान किए गए हैं।

कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर 2023 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने और एजीएम में वोट डालने के पात्र होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार 25 सितंबर 2023 (सुबह 09.00 बजे भा.मा.स.) से शुरू होगी और बुधवार 27 सितंबर, 2023 (शाम 05:00 बजे भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्युल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से एक संकल्प पर वोट देने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो शेयर अर्जित करता है और नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 21 सितंबर 2023 तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

स्क्रटिनाइजर के रूप में नियक्त किया गया है। जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे शेयरधारकों के नाम और पते का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ, पैन/अन्य पहचान और पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति के साथ अपना नाम, डीमैट खाता/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी को cs@vivo.ooo पर अपने पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से 25 सितंबर, 2023 तक अनरोध भेजकर अपना पंजीकरण करा

श्री संजीव डबास, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए

डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के साथ अपने ईमेल पते को अपडेट करें।

ई-वोटिंग या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में. सदस्य www.evoting.nsdI.co.in के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for the Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1800-1020-990 या 1800-224-430 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेंड वर्ल्ड, ए विंग, 4था तल, कमला मिल कंपाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 से निर्धारित ईमेल आईडी evoting@nsdl.co.in पर संपर्क करें।

> कृते विवो कोलैबोरेशन सॉल्युशन्स लिमिटेड संजय मित्तल (प्रबंध निदेशक) डीआईएनः 01710260

.continued from previous page.

स्थान : हिसार

दिनांक : 4 सितंबर 2023

Corrigendum to the Tranche II Prospectus September 04, 2023 (the "Corrigendum)-Notice to Investors

This Corrigendum is with reference to the Tranche II Prospectus dated August 31, 2023 ("Tranche II Prospectus") filed by Indiabulls Housing Finance Limited to National Stock Exchange of India Limited, BSE Limited and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), for the Tranche II Issue. In this regard, please note the following:

The Tranche II Prospectus filed by the Company in the section titled "Issue Structure - The key common terms and conditions of the NCDs" on page 354 of the Tranche II Prospectus states Issue Price (in ₹/NCD) as Not Applicable. Please note that this stands modified as Issue Price (in ₹/NCD) as ₹1000. All capitalised terms used under this Corrigendum shall unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed in the Tranche II Prospectus and all Issue related transaction documents and all other communications issued by the Company up to the date of this Corrigendum in relation to the Issue stands amended to the extent stated herein above and shall be read in conjunction with this Corrigendum and any reference to the Tranchell Prospectus shall be deemed to include reference to this Corrigendum. This Corrigendum, and any reference to the Company at www.indiabullshomeloans.com and the lead managers at www.nuvama.com, www.elaracapital.com, www.trustgroup.in and shall

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

"nuvama

NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LIMITED (formerly known as Edelweiss Securities Limited)* 801 - 804, Wing A, Building No 3, Inspire BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400 051 Telephone No.: +91 22 4009 4400 Email: IBHFL.NCD@nuvama.com

LEAD MANAGERS TO THE ISSUE **Elara**Capital

ELARA CAPITAL (INDIA) PRIVATE LIMITED One International Centre, Tower 3, 21" Floor, Senapati Bapat Marg. Elphinstone Road West, Mumbai – 400 013 Telephone No.: +91 22 6164 8599

Email: ihfl.ncd@elaracapital.com

Contact Person: Ms. Astha Daga

TRUST

TRUST INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED 109/110, Balarama, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400 051

Telephone No.: +91 22 4084 5000

Contact Person: Ms. Hani Jalan

Email: ihfl.ncd@trustgroup.in

IDBI Trusteeship Services Ltd

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 04.09.2023

IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED Universal Insurance Building, Ground Floor, Sir P.M. Road, Mumbai - 400 001, Maharashtra, India Telephone No.: +91 22 4080 7073 Email: itsl@idbitrustee.com/ashishnaik@idbitrustee.com Investor Grievance Email: response@idbitrustee.com

DEBENTURE TRUSTEE**

Contact Person: Ashish Naik; Website: www.idbitrustee.com

दिनांक: 05.09.2023

स्थानः नई दिल्ली

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED (formerly known as KFIN Technologies Private Limited) Selenium Tower B, Plot No – 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad Rangareddi, 500 032, Telangana, India Telephone No.: +91 40 6716 2222 Email: ibhl.ncdipo@kfintech.com Investor Grievance Email: einward.ris@kfintech.com

REGISTRAR TO THE ISSUE

Website: www.kfintech.com; Contact Person: Mr. M Murali Krishna

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer in case of any pre-issue or post Issue related issues such as non-receipt of Allotment advice, demat credit, refund orders, non-receipt of Debenture Certificates, transfers, or interest on application amount etc. ** IDBI Trusteeship Services Limited under Regulation 8 of SEBI NCS Regulations has by its letter dated June 19, 2023 has given its consent for its appointment as Debenture Trustee to the Issue and for its name to be included in Offer Document and in all the subsequent periodical communications sent to the holders of the Debentures issued pursuant to the Tranche II

*Pursuant to order passed by NCLT, Mumbai dated April 27, 2023, the merchant banking business of Edelweiss Financial Services Limited and therefore the said merchant banking business is part of Nuvama Wealth Management Limited. For further details please see "General Information" on page

Company's website at www.indiabullshomeloans.com; on the website of SEBI at www.nseindia.com; on the website o For INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

Mr. Gagan Banga Vice Chairman, Managing Director and CEO 2 DIN: 00010894 🕄

Chandigarh

Plot No. 422B, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurugram, Haryana – 122 016, India. Telephone No.: 0124 6681199; Facsimile No.: 0124 6681240; Website: www.indiabullshomeloans.com

Indiabulls Housing Finance Limited

Issue. For further details, please see Annexure C of the Tranche II Prospectus.

68 of the Tranche II Prospectus.

31, 2023 ("Tranche II Prospectus") read with this Corrigendum dated September 4, 2023 ("Corrigendum") (together with Shelf Prospectus and Tranche II Prospectus") with the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana, National Stock Exchange of India Limited, BSE Limited and SEBI. The Prospectus is available on the investionly on the basis of the information contained in the Prospectus. Investors should note that investment in this public issue of NCDs involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to Tranche II Prospectus and the section on "Risk Factors" beginning on page 21 of the Tranche II Prospectus.

Contact Person: Mr. Lokesh Singhi / Ms. Saili Dave Mr. Amit Kumar Jain

Copies of the Tranche II Prospectus read together with the Shelf Prospectus have been filed with the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana, in terms of section 26 and 31 of the Companies Act, 2013, along with the endorsed/certified copies of all requisite documents. For further details please see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 426 of the Tranche II Prospectus.

Date: September 4, 2023

Disclaimer: INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED ("Company"), subject to market conditions and other considerations is proposing a public issue of secured redeemable non-convertible debentures of face value of ₹1,000 each ("NCDs") and has filled the Shelf Prospectus dated June 30, 2023, (the "Shelf Prospectus") and Tranche II Prospectus dated August

Place: Mumbai

www.readwhere.com